



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1733]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2008/अग्रहायण 21, 1930

No. 1733]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2008/AGRAHAYANA 21, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2874(अ).—यतः मै. कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के हिंजेवाडी, पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने महाराष्ट्र राज्य के हिंजेवाडी, पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 28 अगस्त, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के हिंजेवाडी, पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक

जोन की स्थापना हेतु निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः—

तालिका

क्र. सं.	गांव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हिंजेवाडी	191/1	0.159
2.		201/1	0.340
3.		200/1/3 (पुराना 200/1/1बी)	0.520
4.		201/2	0.240
5.		201/3	0.360
6.		201/4	0.240
7.		202	4.833
8.		203/1	0.390
9.		203/2	0.060
10.		203/3	0.220
11.		203/4	0.310
12.		204/2	0.176
13.		204/3	0.285
14.		204/4	0.700
15.		204/5	0.300
16.		204/6	0.375
17.		205/1	0.311

(1)	(2)	(3)	(4)
18.		205/2	0.199
19.		206/2/3	0.117
20.		208/2/2	0.349
21.		208/5	0.099
22.		208/6/1	0.390
		कुल	10.968

[सं. फा. 2/303/2006-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

S.O. 2874(E).—Whereas, M/s. Kumar Builders Township Ventures Private Limited, a Private Organization in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and software including information technology and information technology enabled services at Hinjewadi, Pune, in the State of Maharashtra;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and software including information technology and information technology enabled services at Hinjewadi, Pune, in the State of Maharashtra on 28th August, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Hinjewadi, Pune, in the State of Maharashtra, comprising of the Survey numbers and the area given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE

S. No.	Village	Survey No.	Area (in hectares)
1	2	3	4
1.	Hinjewadi	191/1	0.159
2.		201/1	0.340
3.		200/1/3 (old 200/1/1B)	0.520

1	2	3	4
4.		201/2	0.240
5.		201/3	0.360
6.		201/4	0.240
7.		202	4.833
8.		203/1	0.390
9.		203/2	0.060
10.		203/3	0.220
11.		203/4	0.310
12.		204/2	0.176
13.		204/3	0.285
14.		204/4	0.700
15.		204/5	0.300
16.		204/6	0.375
17.		205/1	0.311
18.		205/2	0.199
19.		206/2/3	0.177
20.		208/2/2	0.349
21.		208/5	0.099
22.		208/6/1	0.390
Total			10.968

[No. F. 2/303/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 2008

का.आ. 2875(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य के फेस-II, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, गांव हिंजेवाडी तथा मन, तालुका मुलशी, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

1. सीपज विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन
वणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,
भारत सरकार से कम नहीं होगा
3. संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, मुंबई सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार सदस्य, पदेन
रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उसका नामिति
जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा

5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार सदस्य, पदेन रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिति जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग सदस्य, पदेन भारत सरकार
7. महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए गए दो अधिकारी, जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा सदस्य, पदेन
8. मै. कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि विशेष आमंत्रिती

[सं. फा. 2/303/2006-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

S.O. 2875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the electronic hardware and software including formation technology and information technology enabled services Special Economic Zone at Phase-II, Rajiv Gandhi Infotech Park, Village Hinjewadi and Mann, Taluka Mulshi, District Pune, Maharashtra by M/s. Kumar Builders Township Ventures Private Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone Chairperson, ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India Member, ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner Member, ex-officio

6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India Member, ex-officio
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Maharashtra Members, ex-officio
8. Representative of M/s. Kumar Builders Township Ventures Private Limited (Developer) Special Invitee

[No. F. 2/303/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 2008

का.आ. 2876(अ.)—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से मै. कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य के फेस-II, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, गांव हिंजेवाडी तथा मन, तालुका मुल्शी, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[सं. फा. 2/303/2006-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

S.O. 2876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 12th day of December, 2008 as the date from which the electronic hardware and software including formation technology and information technology enabled services Special Economic Zone at Phase-II, Rajiv Gandhi Infotech Park, Village Hinjewadi and Mann, Taluka Mulshi, District Pune, Maharashtra by M/s. Kumar Builders Township Ventures Private Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 :—

[No. F. 2/303/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 2008

का.आ. 2877(अ.)—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नवी मुम्बई को निम्नलिखित तालिका में किए गए

उल्लेख के अनुसार विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है :-

तालिका

क्र.सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	प्रकार	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	मै. कुमार बिल्डर्स टाउन-शिप वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	फेस-II राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, गांव हिंजेवाडी तथा मन, तालुका मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं	10.968

2. विकास आयुक्त के रूप में कार्यों का निष्पादन करने के लिए निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नवी मुम्बई को केन्द्र सरकार, वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। वह वाणिज्य विभाग तथा विशेष आर्थिक जोन अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित आवधिक रिपोर्टें भी भेजेंगे। वह विकास आयुक्त के रूप में की गई सभी कार्यवाहियों के लिए वाणिज्य विभाग के प्रति जवाबदेह होंगे। तथापि, पदधारी की छुट्टी, स्थानांतरण, तैनाती आदि जैसे वैयक्तिक मामले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शासित होंगे।

[सं. फा. 2/303/2006-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

S.O. 2877(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic

Zones Act, 2005, the Central Government hereby appoints Director, Software Technology Parks of India, Navi Mumbai to be the Development Commissioner of the Special Economic Zone, as enumerated in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of the Developer	Location	Type	Area (in hectares)
1	2	3	4	5
1.	Kumar Builders Township Ventures Private Limited	Phase-II, Rajiv Gandhi Infotech Park, Village Hinjewadi and Mann, Taluka Mulshi, District Pune, Maharashtra	Electronic hardware and software including information technology and information technology enabled services	10.968

2. For discharge of the functions as Development Commissioner, Director, Software Technology Parks of India, Navi Mumbai shall abide by the instructions of the Central Government, Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones, issued from time to time. He shall also be sending periodic reports, as prescribed by the Department of Commerce and the Board of Approval on Special Economic Zones. He shall be responsible to the Department of Commerce for all the actions taken as Development Commissioner. The personal matters like leave, transfer, posting etc. of the incumbent shall be governed by the Department of Information Technology or the Software Technology Park of India, as the case may be.

[No. F. 2/303/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.